



Date: May 6, 2023

The Secretary,

National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex,

Bandra (E),

Mumbai - 400 051

**NSE Code: ARTEMISMED** 

The Secretary, BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers,

Dalal Street,

Mumbai - 400 001

Scrip Code: 542919

Sub: <u>Intimation of publication of Audited Financial Results for the quarter and year</u> ended March 31, 2023

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Regulation 47 and other applicable Regulations of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we submit herewith copies of Newspaper advertisement of Audited consolidated & standalone Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2023 published in the following newspapers on May 06, 2023:

- The Financial Express (English National Daily Newspaper- all editions);
- The Jansatta (Hindi National Daily Newspaper- Delhi edition).

The aforesaid results are also accessible on the Company's website at <a href="https://www.artemishospitals.com/investors">https://www.artemishospitals.com/investors</a>.

Submitted for your information & records.

Thanking you,

Yours Faithfully,

For Artemis Medicare Services Limited

Poonam Makkar Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: As above



Artemis Hospital (A unit of Artemis Medicare Services Ltd.)

Sector 51, Gurugram - 122001, Haryana, India. Ph.: +91-124-4511 111 | Fax: +91-124-4588 899

NABH & JCI Accredited Emergency & Trauma: +91-124-4588 888







## TATVA CHINTAN PHARMA CHEM LIMITED

(Formerly known as Tatva Chintan Pharma Chem Private Limited) CIN: L24232GJ1996PLC029894

Registered Office: Plot No. 502 / 17, GIDC Estate, Ankleshwar, Dist. Bharuch, Gujarat - 393 002 Website: www.tatvachintan.com E-mail: cs@tatvachintan.com Tel. No.: +91 75748 48533

#### EXTRACT OF CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND FINANCIAL YEAR ENDED 31 MARCH 2023

Sr.			Quarter ended		Year ended	
No.	Particulars	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
0.00100.1	301070101000000000000000000000000000000	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)
1.	Total income from operations	1,245.11	1,206.07	985.31	4,236.12	4,336.47
2.	Net profit / (loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	113.89	142.23	189.76	483.66	1,041.21
3.	Net profit / (loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	78.02	142.23	189.76	447.79	1,041.21
4.	Net profit / (loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	169.54	116.23	175.09	454.87	958.74
5.	Total comprehensive income for the period [comprising profit / (loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	170.75	117.82	177.96	461.35	960.27
6.	Equity share capital	221.65	221.65	221.65	221.65	221.65
7.	Reserves (excluding revaluation reserve)			2000003032	4,926.26	4,509.24
8.	Earnings per share (of Rs. 10/- each) (not annualised) - Basic: - Diluted:	7.65 7.65	5.24 5.24	7.90 7.90	20.52 20.52	44.59 44.59

#### KEY NUMBERS OF STANDALONE STATEMENT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND FINANCIAL YEAR ENDED 31 MARCH 2023

				(Currer	ncy: Indian Rup	ees in Million)	
Sr.			Quarter ended	4	Year	Year ended	
No.	Particulars	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	
1.	Total income from operations	1,194.06	1,135.37	1,018.80	4,030.44	4,278.11	
2.	Net profit before tax	68.90	131.53	199.63	388.31	1,032.66	
3.	Net profit after tax	161.54	105.57	188.87	404.65	959.87	
4.	Total comprehensive income	161.96	104.71	188.54	403.36	958.42	

- a) The Consolidated & Standalone Financial Results for the quarter and financial year ended 31 March 2023, were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 05 May 2023.
- The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter and financial year ended 31 March 2023, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended. The full format of Financial Results for the quarter and financial year ended 31 March 2023, are available on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and also on the Company's website at www.tatvachintan.com.
- Figures for the previous periods/year have been re-classified/re-arranged/re-grouped to conform to classification of current period, wherever necessary.

For and on behalf of the Board of Directors of Tatva Chintan Pharma Chem Limited

Chintan N. Shah Place: Vadodara, Gujarat, India. **Chairman and Managing Director** Date: 05 May 2023 DIN: 00183618



## ARTEMIS MEDICARE SERVICES LIMITED

CIN: L85110DL2004PLC126414

Plot No.14, Sector 20, Dwarka, South West Delhi, Delhi- 110075 Ph.: +91-124-4511111; Fax: +91-124-4588899;

Email: investor@artemishospitals.com; Website: www.artemishospitals.com

**EXTRACT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR** THE QUARTER & YEAR ENDED MARCH 31, 2023

(₹ in Lakh)

		Quarte	r Ended	Year Ended		
S. No.	Particulars	31-Mar-23	31-Mar-22	31-Mar-23	31-Mar-22	
	Anti-visit det entre son autotranoid (i)		(Aud	ited)		
1	Total Income from Operations	19,528.12	14,943.20	73,742.52	55,480.12	
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	1,403.74	819.44	5,060.60	3,718.48	
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	1,403.74	819.44	5,060.60	3,718.48	
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	1,070.63	1,320.66	3,801.11	3,140.15	
5	Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1,122.41	1,249.05	3,893.21	3,106.68	
6	Paid-up Equity Share Capital (Face value Re.1/-each)	1,341.19	1,323.77	1,341.19	1,323.77	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)			32,232.94	27,925.53	
8	Earning per Equity Share (Face value Re.1/-each) (a) Basic (b) Diluted (* Not annualised)	0.79* 0.76*	1.00* 0.95*	2.89 2.79	2.40 2.29	

## Notes:

		Quarte	r Ended	Year Ended	
S. No.	Particulars	31-Mar-23	31-Mar-22	31-Mar-23	31-Mar-22
		(Audited)			
1	Total Income from Operations	18,702.83	14,619.54	71,433.11	54,478.40
2	Net Profit for the period before Tax after Exceptional Items	1,357.24	849.85	5,286.30	3,880.89
3	Net Profit for the period after Tax	1.039.51	1,332,20	3.968.50	3.257.74

- The above is an extract of the detailed format of audited financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results (Consolidated/ Standalone) are available on the Stock Exchange websites. National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) & BSE Limited (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.artemishospitals.com).
- The above financial results for the quarter and year ended March 31, 2023 were reviewed by the Audit Committee at its meeting held on May 05, 2023 and approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on May 05, 2023. The Statutory Auditors have expressed an unmodified opinion on the aforesaid results.
- The above financial results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended (Ind AS), as prescribed under Section 133 of the Companies Act 2013, and the other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.

For and on behalf of the Board of Directors of Artemis Medicare Services Limited

Place : Gurugram

Onkar Kanwar Chairman DIN: 00058921

Dated: May 5, 2023

For All Advertisement Booking Call: 0120-6651214

Advertisement No. 20/2023

#### Government of India **Public Enterprises Selection Board**

invites applications for the post of

## CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR

POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD. (PGCIL)

Last date of receipt of applications in PESB is by 15.00 hours on

13<sup>th</sup> July, 2023. For details login to website https://www.pesb.gov.in

## "IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

LANCO VIDARBHA THERMAL POWER LIMITED (IN LIQUIDATION)
CIN: U40100TG2005PLC045445

Registered Office: Plot No. 4, Software Units Layout, Hitec City, Madhapur, Hyderabad - 500081, Telangana 9th E-AUCTION SALE NOTICE UNDER INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE, 2010 Notice is hereby given to the public in general under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 imited (in Liquidation) ("Corporate Debtor") is being proposed to be sold collectively / o. parcel basis under Regulation 32 (a) to (d) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India Liquidation Process) Regulations, 2016, on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS", "WHATEVER THERE IS" AND "WITHOUT RECOURSE BASIS" through e-auction platform.

he said proposition for disposition is without any kind of warranties and indemnities.

The bidding of the assets stated in the below table shall take place through online e-auction service provider, M/s National E-Governance Services Limited (NeSL) via website https://nbid.nesl.co.in/app/login. Submission of Requisite Forms, Affidavits, Declaration | From 06.05.2023 to 20.05.2023 tc. alongwith Refundable Deposit by the Prospective Refundable Deposit Amount to be submitted alongwith Bid Application Form Rs. 1 Lac, irrespective of the interest in number of lot(s) expressed for ite visit / Inspection Date From 23.05.2023 to 29.05.2023

ast Date for Submission of EMD 01.06.2023 by 05.00 P.M. ate and Time of Auction On 03.06.2023 tentatively from 03:00 P.M. to 05:00 P.M. Following group / lot of assets available for sale in e-auction: Reserve Price 3,73,977.00 GRP Pipes 1100 mm Diameter 91,19,790.00 9,11,979.00 Plus 18% GST Unit Auxiliary Transformer (16MVA 11/3.45KV) 2,63,75,220.00 26,37,522.00

\*All those applicants who have earlier submitted the Bid Application Form in any of the earlier e-auctions need only to send an undertaking confirmation by email and hard copy that new schedule and terms & conditions of the 9th E-Auction Sale are acceptable to them. They should also indicate afresh the Lots for which they are now applying alongwith the Refundable Deposit of Rs. 1 Lac. nterested applicant may refer to complete 9th E-Auction Process Information containing details with respect to e-auction Bid Application Form; Declaration and Undertakings, Other Forms, Terms and Conditions with respect to the sale of assets and its online auction sale available on the e-auction platform https://nbid.nesl.co.in/app/login and also on the website

f the Corporate Debtor at http://www.lancovidarbha.com. The Liquidator has the right to accept reject or cancel any bid or extend or modify any terms of the E-Auction at any time withou assigning any reason. For any query regarding e-auction bidding, Contact: **Mr. Neel Doshi** at +91-9404000667 or **Mr. P Sankar** at +91-9980300883 E-mail: neeld@nesl.co.in and for asset / sale related issues please contact **Mr. Vijay Kumar Garg, Liquidator** at +91-9611938833 or e-mail at liquidation\_lvtpl@sumedhamanagement.com or contact Mr. Parikshit Poddar a Mob: +91 8334039272. Vijay Kumar Garg, Liquidator In the matter of Lanco Vidarbha Thermal Power Limited Reg. No. IBBI/IPA-002/IP-N00359/2017-18/11060

Res. Address: Flat No. 1402, Tower A, GPL Eden Heights, Sector 70, Darbaripur Road, Surugram - 122101, Haryana Reg. Email Id: gargvijay1704@gmail.com Mobile No. +91 9611938833

Date: 06.05.2023

Project Specific Address for Correspondence: C/o Sumedha Management Solutions Private Limited B-1/12, 2nd Floor, Safdarjung Enclave, New Delhi - 110029. Contact Number: 011-4165 4481/85 Email Id (Process specific): liquidation lytpl@sumedhamanagement.com

Godrej Finance Limited



Registered Office: Godrej One, Pirojshanagar, Eastern Express Highway, Vikhroli (East), Mumbai - 400 079 Corporate Identity Number: U67120MH1992PLC065457 | Tel - 022-68815555 Website: https://www.godrejcapital.com/GF/products.html | Email ID: gc.secretarial@godrejcapital.com

#### STATEMENT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2023

(Currency: Indian Rupees in lakhs)

Sr. No.	Particulars	Quarte	er Ended	Year E	Ended
		March 31, 2023	March 31, 2022	March 31, 2023	March 31, 2022
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)
1.	Total Income from Operations	3,348.45	34.38	6,563.45	44.33
2.	Net Profit/(Loss) for the period/year (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(1,892.80)	(1,065.39)	(6,897.86)	(1,335.80)
3.	Net Profit/(Loss) for the period/year before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1,892.80)	(1,065.39)	(6,897.86)	(1,335.80)
4.	Net Profit/(Loss) for the period/year after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1,892.80)	(1,065.98)	(6,898.25)	(1,336.38)
5.	Total Comprehensive Income/(Loss) for the period/year [Comprising Profit/(Loss) for the period/year (after tax) and Other Comprehensive Income/(loss) (after tax)]	(1,925.92)	(1,065.98)	(6,923.28)	(1,336.38)
6.	Paid up Equity Share Capital	55,470.33	7,020.72	55,470.33	7,020.72
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	(8,756.50)	(1,833.23)	(8,756.50)	(1,833.23)
8.	Securities Premium Account	1,550.39	-	1,550.39	
9.	Net worth	48,088.98	5,179.20	48,088.98	5,179.20
10.	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	1,14,519.47	6,000.00	1,14,519.47	6,000.00
11.	Outstanding Redeemable Preference Shares	Nil	Nil	Nil	Nil
12.	Debt Equity Ratio	2.38	1.16	2.38	1.16
13.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)				
	1. Basic •	(0.34)	(2.16)	(1.57)	(7.66)
	2. Diluted •	(0.34)	(2.16)	(1.57)	(7.66)
14.	Capital Redemption Reserve	Nil	Nil	Nil	Nil
15.	Debenture Redemption Reserve	Nil	Nil	Nil	Nil
16.	Debt Service Coverage Ratio	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
17.	Interest Service Coverage Ratio	N.A.	N.A.	N.A.	N.A

 (Not annualised for guarter ended March 31, 2023 and March 31, 2022) . (Annualised for year ended March 31, 2023 and March 31, 2022)

## Notes

- 1. The above is an extract of the Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"). The full format of the aforesaid financial results is available on the website of BSE Limited (URL: https://www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Ltd (URL: https://www.nseindia.com) and on the website of the Company (URL: https://www.godrejcapital.com/GF/products.html).
- 2. For the other line items referred in regulation 52(4) of the Listing Regulations, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange and are available on website of BSE Limited (URL: https://www.bseindia.com) and website of National Stock Exchange of India Ltd. (URL: https://www.nseindia.com) and website of the Company (URL: https://www.godreicapital.com/GF/products.html).
- 3. These financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on May 04, 2023.
- 4. The Company has adopted Ind AS from April 1, 2022 with effective transition date of April 1, 2021 and accordingly, these financial results together with the results for the comparative reporting period have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles as laid down in Ind AS, prescribed under section 133 of the Companies Act 2013 ('The Act') read with relevant rules issued thereunder and the other accounting principles generally accepted in India.

"This transition to Ind AS has been carried out from the erstwhile Accounting Standards notified under the Act, read with rule 7 of Companies (Accounts) Rules 2014 (as amended), guidelines issued by the Reserve Bank of India ('The RBI') and other generally accepted accounting principles in India (collectively referred to as 'the Previous GAAP'). Accordingly, the impact of transition has been recorded in the opening reserves as at April 1, 2021. Comparative previous period

as presented in these financial results has been restated / reclassified in order to conform to current period presentation."

As required under Ind AS 101, reconciliation of net profit/(loss) under IGAAP and Ind AS is given below.

i) Total Comprehensive income reconciliation	For the year ended March 31, 2022
Net (loss) as reported under IGAAP Add/(Less):	(1,311.04)
Impairment allowance on Financial Instruments measured at amortised cost	(18.16)
Impact of EIR method on other financial assets	0.02
Net Fair value gain/(loss) on Investment measured at FVTPL	0.74
Impact of Ind AS 116 - Leases	(7.94)
Net (loss) under Ind AS	(1,336.38)
Remeasurement of defined benefit obligation	
Total Comprehensive income /(loss) under Ind AS	(1,336.38)

New Delhi

For and on behalf of the Board of Directors of Godrej Finance Limited

> Manish Shah Director DIN: 06422627

Place: Mumbai Date: May 04, 2023

financialexp.epar



punjab national bank

# YURANUS INFRASTRUCTURE LIMITED

CIN No.: L74110GJ1994PLC021352

Registered Office: 201, 2nd Floor, Maulik Arcade, Above Karnavati, Pagarkha Bazar, Mansi Cross Road, Vastrapur, Ahmedabad, Gujarat, India - 380015;

Contact No.: 079-40082820 / 21; • Email: info@yuranusinfra.com; • Website: www.yuranusinfra.com; Recommendations of the Committee of Independent Directors (IDC) pursuant to Regulation 26(7) of the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended ("SEBI (SAST) Regulations") in relation to the Open Offer made by Mr. Nitinbhai Govindbhai Patel (Acquirer No. 1), Mrs. Gitaben Nitinbhai Patel (Acquirer No. 2), Mr. Kushal Nitinbhai Patel (Acquirer No. 3) and Mrs. Pooja Kushal Patel (Acquirer No. 4) for acquisition of upto 9,10,000 (Nine Lakh Ten Thousand) Equity Shares of Rs. 10/- each, to the public shareholders of Yuranus Infrastructure Limited ("Target Company" or "YIL").

OI	ruranus intrastructure Limited ("Target Compai	
	Date	May 05, 2023
2	Name of the Target Company (TC)	Yuranus Infrastructure Limited
3	Details of the Offer pertaining to Target Company	Open Offer for the acquisition of upto 9,10,000 (Nine Lakh Ten Thousand) Equity Shares of Rs. 10/- each, being constituting 26.00% of the Equity Share Capital of the Yuranus Infrastructure Limited ("YIL") by the Acquirers pursuant to and in compliance with Regulations 3 & 4 of the SEBI (SAST) Regulations.
4	Name(s) of the Acquirers	Acquirer No. 1: Mr. Nitinbhai Govindbhai Patel
ш		Acquirer No. 2: Mrs. Gitaben Nitinbhai Patel
ш		Acquirer No. 3: Mr. Kushal Nitinbhai Patel
ш		Acquirer No. 4: Mrs. Pooja Kushal Patel
5	Name(s) of the PAC	Nii
6	Name of the Manager to the offer	Beeline Capital Advisors Private Limited
7	Members of the Committee of Independent Directors	Mr. Atul Jayantilal Shah (Chairman) and     Mr. Rajendrakumar Shantilal Gandhi (Member)
8	IDC Member's relationship with the TC (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any	<ul> <li>All Members of the IDC are Independent Directors of the Target Company.</li> <li>None of the IDC Members hold any Equity Shares of the Target Company.</li> </ul>
		<ul> <li>None of the IDC Members holds any other contract or relationship with the Target Company other than their position as Independent Director of the Target Company.</li> </ul>
9	Trading in the Equity Shares/other securities of the TC by IDC Members	None of the IDC Members have traded in the Equity Shares of Target Company during 12 months prior to the date of the Public Announcement of the Offer.
10	IDC Member's relationship with the Acquirers (Director, Equity Shares owned, any other contract / relationship), if any.	None of the IDC Members have any relationship with the Acquirers.
11	Trading in the Equity Shares / other securities of the Acquirers by IDC Members	Not Applicable
12	Recommendation on the Open offer, as to whether the offer is fair and reasonable	IDC Members believes that the Open Offer is fair and reasonable.
13	Summary of reasons for recommendation	IDC recommends acceptance of the Open offer made by the Acquirer as the Offer price of Rs. 8/- per fully paid-up equity share is fair and reasonable based on the following reasons:
		The Offer price appears to be reasonable considering book value & profitability of the Company.
		2. The offer price of Rs. 8/- per fully paid-up equity share offered by the Acquirers is equal to price paid by Acquirer in SPA to Sellers.
		3. The Offer Price of ₹8 / per Fully paid up equity Shares offered by the acquirer is more than the volume-weighted average market price for a period of 60 trading days immediately preceding the date of PA on BSE.
		Based on the above, the IDC Members are of the opinion that the Offer Price to the Public Shareholders of the Target Company is in compliance with the requirements of the Regulations and hence is fair and reasonable. The shareholders of the TC are advised to independently evaluate the Offer and take informed decision whether or not to offer their shares in the Open Offer.
14	Details of Independent Advisors, if any.	None
	Total Control of the	

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the Target Company under the SEBI (SAST) Regulations. For YURANUS INFRASTRUCTURE LIMITED

None

Place: Ahmedabad

Date: May 05, 2023

15 Any other matter(s) to be highlighted

Mr. Atul Jayantilal Shah (IDC - Chairman)

Mr. Rajendrakumar Shantilal Gandhi (IDC - Member)

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : 09, सामुदायिक केंद्र, बंसत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057 शाखा कार्यालय : 27, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057

(प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) के अंतर्गत)

वित्तीय परिसम्पत्तियाँ के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत हीर डाउसिंग फाइनेंस लिमिटेंड (प्रतिभृत ऋणदाता) के पास बंधककृत अचल संपत्ति के विक्रय हेतु सुचना। तदहारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में निम्न उधारकर्ता(ऑ) तथा गारंटर(रॉ), अथवा उनके विविक उल्लासिकारियों / प्रतिनिधियों को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत / प्रभारित निस् वेवरणित अवल संपत्तिया, जिनका अधिग्रहण हीचे हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी (प्रतिभूत ऋणवाता) द्वारा कर लिया गया है, का विकय 25-मई-2023 (ई-नीलामी तिथि) को "जैसी है जहां है", "जैसी ( जो हैं। और "वहां जो कछ भी हैं। आधार पर निम्न वर्णित तधारकताओं, सह-उधारकर्ताओं अथवा गारंटरों की ओर से देय-मुन्तेय बकाया राशियों की वसुली के लिए किया जाावेगा। आरक्षित मृत्य तथा धरोडर राशि जमा का उल्लेख नीचे किया गया है। सार्वजनिक ई-नीलामी में प्रतिभागिता करने के लिए पराज को डिमांच द्वापट / आरटीजीएस / एनईएकटी के मध्यम से बोली प्रपन्न के साथ हीरों हाउसिंग फाइनेंस लि. के प्राधिकृत अधिकारी के पास 24-मई-2023 को साथ 5 बजे तक अथवा इससे पूर्व शाखा कार्यातयः भवन सं. 27, सामुदायिक केंद्र, बसंत

ऋण खाता	चमारकर्ता(ओं) / सह−उमार कर्ता(ओं) / गारंटर(रों) / विवि	मांग सूचना की तिथि	अविग्रहण का प्रकार (रचनात्मक/भौतिक के	आरसित मूल्य परोहर रारि	
सं.	क उत्तराधिकाची(रियों)/ विधिक प्रतिनिधि के नाम	तिथि के अनुसार राशि	अंतर्गत)		
HHFDELHOU190 00005535 &	रीता कुमारी, शुमम गुप्ता	23-12-2021 9. 3,57,962/-	भीतिक	14,00,000/-	
HHFDELIPL1900 0005557	3 3 4 3	दिनांक 05-05-2023 के अनुसार		₮ 1,40,000/	

(आरजेड-बी-46) खसरा सं. 38, ग्राम-बिंदापुर, सुभाग पार्क, उत्तम नगर, ब्लॉक-बी, गली सं. 4, नई दिल्ली-110069 जिसका भूमि क्षेत्र माप 49 वर्ग गज अर्थात् 40.96 वर्ग मीटर है (आम पार्किंग स्थल पर भूत वल पर एक द्विपहिया पार्किंग का स्थान), जो इस प्रकार परिसीमित है: उत्तर- संपरित सं. आरजेड-बी-45 पूर्व- गतियारा 10 फूट, दक्षिण- संपत्ति का शेष भाग, पश्चिम- आम पार्किंग स्थल/सङ्क।

नियम एवं शतैः ई-नीलामी पोर्टल https://sarfaesi.auctiontiger.net के माध्यम से दिनांक 25-मई-2023 (ई-नीलामी तिथि) को अप. 2.00 बजे से अप. 3.00 बजे के मध्य 10 मिनटों प्रत्येक के सीमित विस्तार के साथ आयोजित होगी। (१) निर्धारित निविदा/बोली प्रपत्र तथा विक्रय के नियम एवं शर्ते, शाखा कार्यालय 27 सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057 पर किसी भी कार्यदिवस पर प्रात: 10.00 से साय 05.00 बजे के मध्य उपलब्ध होंगे। (2) अवल संपत्ति का आरक्षित मूल्य से कम पर विक्रय नहीं किया जाएगा। (३) बोली विदे राशि रु. 10,000 / -- (रुपए दस रुजार मात्र) होगी। (४) उपरोक्त संपत्ति के क्रयार्थ जमा / प्रस्तृत की गई समस्त बोलियों / निविदाओं के साथ उपर्युक्तानुसार धरोहर राशि, "हीरो हाउसिंग काइनेंस लि.'' के पंछ में आहरित विमांव द्वापट/आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से संलग्न होनी चाहिए। ई—नीलामी के उपरांत असफल बोलीदाओं को घराज राशि वापस कर दी जायेगी। (5) सर्वोच्च बोलीदाता को तब ही सफल बोलीदाता के रूप में घोषित किया जाएगा, जब यह बोलीदान हेतु विधिक रूप में सदैव अर्हक पाया जाता । और इसके अतिरिक्त जब उसकी बोली राशि आरक्षित मृत्य से कम नहीं हो। यह 'प्राधिकृत अधिकारी' वं वियेकाधीन होगा कि वे जस स्थिति में सर्वोच्च बोली को अस्वीकार /स्वीकार कर सकते हैं जब उन्हें यह ज्ञात हो कि प्रस्तावित मूल्य स्पष्टतः इतना अपर्याप्त है कि वह बोलीदान करने के लिए अनुष्ठित लग रहा है। (६) प्रस्तावित बोलीदाताओं द्वारा संपत्ति का अवलोकन, पूर्व नियुक्ति के साथ 18-मई-2023 को 11.00 बजें से लेकर के 2.00 बजे तक किया जा सकता है। (7) एक सफल बोलीदाता के रूप में घोषित हो बुके व्यक्ति को, ऐसी घोषणा के बाद तत्काल, क्रयराशि/सर्वोच्च बोली की 25 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी, जिसमें धराज राशि भी सम्मिलित होगी, और यह राशि 'प्राधिकृत अधिकारी' के पास 24 घंटों के अंदर जमा करनी होगी, और यह राशि जमा करने में घक होने पर संपत्ति को तत्काल प्रभाव से निजी संधि द्वारा की जानेवाली नई नीलामी / विक्रय हेतु रख दिया जाएगा। (४) यदि उपरोक्तानुसार आंशिक राशि जमा कर दी जाती है तं भुगतानयोग्य क्रय राशि की शेष रकम का भुगतान, क्रेता द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संपत्ति के विक्रय की अभिपृष्टि की तिथि से 15वें दिवस को अथवा इससे पूर्व करना होगा, इसमें ऐसा दिवस छूट जाएगा, अथवा यदि 15यें दिन रविवार या अन्य अवकाश पड़ता है तो तब 15यां दिवस के बाद के प्रथम कार्यालय दिवस के भूगतान करना होगा। (७) उत्पर वर्णित अवधि के अंदर किसी भूगतान में चुक होने की स्थिति में, संपत्ति के निजी सिंध द्वारा की जानेवाली नई नीलामी/विक्रय हेतु रख दिया जाएगा। धराज सहित अन्य जमा राशियों को हीरो हार्जिंग फाइनेंस लि. द्वारा जब्त कर लिया जाएगा और चूककर्ता क्रेंता संपत्ति से संबंधित समस्त दावों से विवेत हो जाएगा। (10) उपरोक्त विक्रय, हीरो हाउसिंग फाइनेंस लि. के अंतिम अनुमोदन के अधीन होगा। (11) हीरा हारासिंग फाइनेंस लि. को जात किसी भारप्रस्तता के विवरण, जिस हेत् संपत्ति हैं: अज्ञात है दावे, यदि कोई है, जिन्हें संपत्ति हेतु अग्रसारित किया गया है तथा इसकी प्रकृति एवं मूल्य का कोई अन्य ज्ञात विवरण अञ्चात है। (12) इच्छुक पक्षकारों से अनुरोध है कि वे संवैधानिक एवं अन्य प्रदेयताओं जैसे कि संबंधित विभागों / कार्यालयों के विक्रय / सपित कर विद्युत बकार्यों, एवं सोसाइटी बकार्यों, इत्यादि सहित का सत्यापन/अभिपृष्टि कर लें। कंपनी, संपत्ति पर बकाया किसी देयक राशि के भूगतान का कोई भी उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करती। (13) सर्वोच्च घोषित बोली राशि पर सर्वोच्च बोलीदाता द्वारा 1% टीठीएस, यदि कोई हो का भुगतान किया जाएगा। भुगतान, सर्वोच्च बोलीदाता द्वारा कंपनी के पैन के अंतर्गत जमा करने की आवश्यकत है तथा चालान की प्रति कंपनी के पास जमा करनी होगी। (14) विक्रय, पूर्णत: इस विज्ञापन तथा निर्धारित निविदा प्रपत्र में समाविष्ट नियमों एवं शतौं के अधीन है। (15) सफल बोलीदाता/केता को विधि-व्यवस्था वं अनुरूप प्रयोज्यानुसार विक्रय प्रमाणपत्र पंजीकृत करवाने हेत् प्रभारित समस्त स्टांप शुल्कों, पंजीकरण शल्कों एवं आकरिमक व्ययों का भुगतान वहन करना होगा। (16) प्राधिकृत अधिकारी के पास कोई भी कारण बताए बिना बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा निविदा को हटाने / स्वरित / निरस्त करने और कोई भी पूर्व सूचना दिए बिना इस विक्रय के किसी नियम एवं शर्त को बदलने का भी पूर्णाधिकार है। (17) इच्छक बोलीदालागर श्री राज मिश्रा को मोबाइल न, 9971808985 पर कार्यालय समय (प्रात: 10.00 से साथ 6.00 बजे) के दौरान संपर्क कर सकते हैं अधवा संपरित का खाता सं./उधारकर्ता का नाम वर्णित करते हुये

ब्याज एवं ब्यवों के साथ मुगतान कर दें। मुगतान करने में विफल रहने पर संपत्ति की नीलामी कर दी जाएगी तथा शेष बकाया राशि, यदि कोई निकलती है, की वसूली आप से ब्याज एवं लागत सहित की जाएगी। विक्रय के विस्तृत निवमों एवं शतों के लिए कृपया हीरों हारुसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभूत ऋणदाता) की वेबसाइट अर्थात् www.herohousingfinance.com पर उपलब्ध https://uat.herohomefinance.in/hero\_housing/other-notice का संबर्ध ग्रहण करें।

प्राधिकृत अधिकारी, श्री सुनील यादव, मोबाइल-9818840495 दिनांक : 06-मई-2023 स्थान : दिल्ली / राराक्षे ईमेल : assetdisposal@herohfl.com

पंजाब नैशनल बैंक

...the name you can BANK upon!

कार्यालयः साई विहार, मदन पैलेस के सम्मुख, ग्राम तलाशपुर कलां, रामघाट मार्ग, अलीगढ़, 202001, ई-मेलः cs8183@pnb.co.in

1. नेहा अथेया पुत्री स्वर्गीय प्रमोद कुमार कुलश्रेष्ठ (सह—उधारकता और सरिता रानी कुलश्रेष्ठ की कानूनी उत्तराधिकारी)

पता— 1/40, सुरेंद्र नगर अलीगढ़, (यूपी) 202001 पता— 282, सुरेंद्र नगर अलीगढ़, (यूपी) 202001

पता— फ्लैट नंबर—202, माधव अपार्टमेंट, द्वितीय तल, राजेश्वर नगर कॉलोनी, सुरेंद्र नगर, अलीगढ़, (यूपी) 202001

2. **मवतोष अथेया** (सरिता रानी कुलश्रेष्ठ के कानूनी उत्तराधिकारी) पता— फ्लैट नंबर—202, द्वितीय तल, माधव अपार्टमेंट, राजेश्वर कॉलोनी, सुरेंद्र नगर, अलीगढ़, यूपी—202001

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना संदर्भ : खाता सं. 051100NC00008891 श्रीमती सरिता रानी कुलश्रेष्ठ (दिवंगत होने के बाद से) तथा सुश्री नेता अथेया (सह-उधारकर्ता) द्वारा प्राप्त उधार सुविधायें।

श्रीमती सरिता रानी कुलश्रेष्ठ (दिवंगत होने के बाद से) तथा सुश्री नेता अथेया (सह—उधारकर्ता) ने शाखा कार्यालय— सिविल लाइंस अलीगढ़ से निम्नलिखित ऋण सुविधायें प्राप्त की हैं।

अब, आप नेहा अथेया पुत्र स्वर्गीय प्रमोद कुमार कुलश्रेष्ठ (सह-उधारकर्ता एवं सरिता रानी कुलश्रेष्ठ की कानूनी उत्तराधिकारी) और भवतोश अथेया (सरिता रानी कुलश्रेष्ठ की कानुनी उत्तराधिकारी) को निम्नलिखित बकाया राशि का भूगतान करने का निर्देश दिया जाता हैः

क्र. सं.	सुविधा	सीमा	एनपीए की तिथि के अनुसार शेष बकाया (अर्थात् मूलधन+ ब्याज)	ब्याज (01.02.2022 एनपीए की तिथ्यि से 27.04.2023 (सूचना की तिथ्ये) तक प्रभावी	
1.	सावधि ऋण (आवासन)	₹. 28,92,000/-	₹. 26,30,460.00	♥. 2,95,308.00/-	रु. 28,76,310.00+ भावी ब्याज एवं अन्य शुल्क 01.04.2023 से प्रभावी
0				कुल	रु. 28,76,310.00 + भावी ब्याज एवं अन्य शुल्क 01.04.2023 से प्रभावी
कि	स्त / ब्याज / मृ	्ल ऋण का	भुगतान न करने के कारण, ख	बाता / तो को भारतीय रिजवे ब	ांक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनार्जक

हजार तीन सौ दस मात्र) (यहां इसमें इसके उपरांत ''प्रतिभत ऋण'' के रूप में संदर्भित) पूर्ण भगतान होने तक 01-04-2023 से प्रभावी

परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। तिथि के अनुसार बैंक को देय राशि रु. 28,76,310.00 (रुपये अट्टाईस लाख छिहत्तर

उपरोक्त सुविधाओं के तहत बकाया को सुरक्षित करने के लिए, आपने अन्य बातों के साथ निम्नलिखित संपित्तियों / परिसंपित्तियों के संबंध में सुरक्षा हित सुजित किया है:

		<del> </del>						
क्र.स.	सुविधा	प्रतिमूति						
	सावधि ऋण	श्रीमती सरिता रानी कुलश्रेष्ठ पत्नी स्वर्गीय प्रमोद कुमार कुलश्रेष्ठ के नाम पर दर्ज संपत्ति के सभी भागों एवं अंशों का						
		साम्यिक बंधक, जो फ्लैट नंबर–202, माधव अपार्टमेंट, द्वितीय तल, राजेश्वर नगर कॉलोनी, सुरेंद्र नगर, अलीगढ़, (यूपी)						
		में स्थित हैं, जिनका क्षेत्राधिमापन 129.13 वर्ग मीटर है, जिसकी सीमाएं निम्नानुसार हैं:						
		पूर्व- रास्ता 15 फुट पश्चिम- सामान्य मार्ग						
		उत्तर— फ्लैट संख्या २०४ - दक्षिण— रास्ता ३० फुट						
		S .						
	,							

हम एतदृद्वीरा आप से रु. 28,76,310.00 (रुपये अट्डाईस लाख छिहत्तर हजार तीन सौ दस मात्र) की राशि का पूर्ण भुगतान होने तक संविदागत दर पर 01-04-2023 से प्रभावी भावी ब्याज के साथ इस सूचना की तिथि से 60 दिनों (साठ दिनों) के भीतर भूगतान करने को कहते हैं।

भुगतान करने में चूक होने पर, विधि—व्यवस्था के तहत उपलब्धानुसार बैंक के अन्य अधिकारों का प्रयोग करने के अलावा, बैंक वित्तीय परिसंपत्तियों

के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (यहां इसमें इसके उपरांत ''अधिनियम'' के रूप में संदर्भित पिठत)

की धारा 13 (4) के तहत प्रदान की गई किसी भी या सभी शक्तियों का प्रयोग करने का इरादा रखता है। आपके द्वारा सुरक्षित ऋण का भूगतान न करने की रिथति में बैंक द्वारा प्रवर्तित किये जाने हेतू इरादाकृत प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विवरण निम्नानुसार हैं:

श्रीमती सरिता रानी कुलश्रेष्ठ पत्नी स्वर्गीय प्रमोद कुमार कुलश्रेष्ठ के नाम पर दर्ज संपत्ति के सभी भागों एवं अंशों का साम्यिक बंधक, जो फ्लैट नंबर-202, माधव अपार्टमेंट, द्वितीय तल, राजेश्वर नगर कॉलोनी, सरेंद्र नगर, अलीगढ, (युपी) में स्थित हैं, जिनका क्षेत्राधिमापन 129.13 वर्ग मीटर है, जिसकी सीमाएं निम्नानुसार हैं: पूर्व- रास्ता 15 फूट पश्चिम- सामान्य मार्ग उत्तर- फ्लैट संख्या 204 दक्षिण- रास्ता 30 फूट

आपका ध्यान, एतदद्वारा सुरक्षित परिसंपत्तियों के मोचनार्थ आपके पास उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आप इस नोटिस की प्राप्ति के बाद, बिक्री, पट्टे या के माध्यम से अथवा अन्यथ (व्यवसाय के सामान्य कार्यक्रम के अलावा) बैंक की पूर्व लिखित सहमित के बिना ऊपर संदर्भित कोई भी सुरक्षित संपत्ति स्थानांतरित नहीं करेंगे आपको यह भी नोटिस दिया जाता है कि उक्त अधिनियम के तहत प्रदान किए गए इस वैधानिक निषेधाज्ञा / रोकथाम का कोई भी उल्लंघन एक अपराध है। यदि किसी भी कारण से, सुरक्षित परिसंपत्तियों को व्यापार के सामान्य क्रम में बेचा जाता है या पट्टे पर दिया जाता है, तो बिक्री आय या प्राप्त आय को बैंक में / को जमा / प्रेषित किया जाएगा। आपको ऐसी वसूली / आय का उचित हिसाब देना होगा। \*हम अन्य सुरक्षित परिसंपत्तियों को प्रवर्तित करने के लिए अपने अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

कपया इस नोटिस के तहत इस मांग का अनपालन करें और सभी अप्रियताओं से बचें। पालन न करने की स्थिति में आपको सभी लागतों और परिणामों के लिए उत्तरदायी ठहराते हये आगे की अनिवार्य कार्रवाई का सहारा लिया जायेगा।

\*यह सूचना डीआरटी / न्यायालय के समक्ष कानूनी कार्रवाई करने वाले बैंक पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी की जाती है, जैसा भी मामला हो \*यह सूचना डीआरटी / न्यायालय के समक्ष लंबित वाद / मूकदमे में बैंक के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी की जाती है। \*यदि किसी व्यक्ति का संपत्ति पर किसी भी प्रकार का कानुनी अधिकार है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अपना अभिवेदन प्रस्तृत कर सकता / सकती है।

\*पूर्व की मांग सूचना दिनांकित 11-08-2022 को, नई सूचना जारी करने के बैंक के अधिकार पर प्रतिकृत प्रभाव डाले बिना, वापस लिया जाता है

कृते—पंजाब नैशनल बैंक दिनांक : 27—04—2023 ओंम विभु, (मुख्य प्रबंधक) स्थान : अलीगढ



#### न्यूक्लियर पॉवर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA LIMITED

(भारत सरकार का उद्यम A Government of India Enterprise) मानव संसाधन निदेशालय Directorate of Human Resource विक्रम साराभाई भवन, Vikram Sarabhai Bhavan, अणुशक्ति नगर Anushakti Nagar, मुंबई Mumbai-400 094 सी आई एन CIN: U40104MH1987GOI149458



Website: www.npcil.nic.in विज्ञापन सं. एनपीसीआईएल/एचआरएम/2023/02

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख: 29/05/2023 (1700 बजे)

भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यरत, भारत में न्यूक्लियर प्रौद्योगिकी के सभी पहलुओं यथा, स्थल चयन, अभिकल्पन, निर्माण, कमीशनिंग, प्रचालन, अनुरक्षण, नवीकरण, आधुनिकीकरण व उन्नयन, संयंत्र आयु-सीमा विस्तार, अपशिष्ट प्रबंधन एवं न्यूक्लियर रिएक्टरों की डीकमीशनिंग जैसे कार्यों की एक-साथ समग्र सक्षमता युक्त सार्वजनिक क्षेत्र का एक प्रमुख उद्यम एनपीसीआईएल, इन चुनौतीपूर्ण आयामों के दायित्व निर्वहन/दायित्व भागीदारी हेतु, पात्र भारतीय नागरिकों से निम्नलिखित पदों हेतु ऑन-लाइन आवेदन आमंत्रित करता है:

क्र. सं.	पद का नाम	वेतन एवं वेतन स्तर	दिनांक 29/05/2023	रिक्तियों की संख्या (बैकलाग सहित, यदि कोई हो तो)					
			को आयु सीमा	सामा.	ईडब्ल्यूएस	एस सी	एसटी	ओबीसी (एनसीएल)	कुल
1	उप प्रबंधक (मानव संसाधन)			20	04	08	03	13	48
2	उप प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)	रु. 56,100/- वेतन स्तर 10	18-30 वर्ष	11	02	03	06	10	32
3	उप प्रबंधक (संविदा एवं सामग्री)			17	03	07	03	12	42
4	उप प्रबंधक (विधि)			01	00	00	01	00	02
5	कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	रु. 35,400/- वेतन स्तर 6	18-28 বর্ष	01	01	00	01	01	04

उपर्यंत्रन कुल में मे पीटक्लाबीटी अभ्यक्षियों के लिए आर्यधन विक्रियां।

उपयुक्त कुल म स पाडळल्यूषाडा जम्यायया क लिए जारावत ।राक्तपा:-								
समूह	नि:शक्तता का वर्ग	वर्तमान रिक्तियां	* बैकलॉग रिक्तियां	कुल				
	(a)	2	1	03				
समूह 'ए' (उप प्रबंधक)	(b)	1	1	02				
	(c)	1	0	01				
1	(d) & (e)	1	0	01				

कनिष्ठ हिंदी अनवादक की उपर्यक्त अधिसचित चार (04) रिक्तियों के साथ ही एक (01) भरी न जा सकी पीडब्ल्यबीडी रिक्ति निम्नानसार है जिसे भी भरा जाएगाः

1	समूह	नि:शक्तता का वर्ग	वर्तमान रिक्तियाँ	* बैकलॉग रिक्तियां	कुल
1	समूह 'बी' (कनिष्ठ हिंदी	(b)	0	1	01
	अनुवादक)				

\* यदि बेंचमार्क निःशक्तता का कोई उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिलता है तो इस रिक्ति को आरक्षण हेतु चिन्हित बेंचमार्क निःशक्तता के वर्ग में से आपसी अदला-बदली के माध्यम से भरा जा सकता है।

पद व वर्ग वार रिक्तियों, बॅकलॉग रिक्तियां, पात्रता मानदण्ड, अनुभव, चयन प्रक्रिया आदि से संबंधित विस्तृत विवरण www.npcilcareers.co.in & www.npcil.nic.in पर उपलब्ध होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया दिनांक 12/05/2023 को प्रातः 1000 बजे से प्रारंभ होकर दिनांक 29/05/2023 को सायंकाल 1700 बजे समाप्त होगी।


इस संदर्भ में आगे दी जाने वाली कोई भी जानकारी/शुद्धिपत्र/अनुशेष आदि केवल उपर्युक्त वेबसाइट पर ही अपलोड किए जाएंगे एनपीसीआईएल अपनी श्रमशक्ति में स्त्री-पुरुष संतुलन के लिए निरंतर प्रयत्नशील है और महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने हेतु प्रेरित किया जाता है।

CBC 48132/12/0002/2324



"स्वच्छ रहो. स्वस्थ रहो"

एनपीसीआईएल, भारत सरकार द्वारा चलाए गए स्वच्छ भारत मिशन को प्रोत्साहित करता है। न्युक्लियर विद्युत - एक अपरिहार्य विकल्प



## आर्टेमिस मेडिकेयर सर्विसेज लिमिटेड CIN: L85110DL2004PLC126414

प्लॉट नंबर १४, सेक्टर २०, द्वारका, साउथ वेस्ट दिल्ली, दिल्ली- ११००७५ फोन: +91-124-4511111; फ़ैक्स: +91-124-4588899;

ईमेल: investor@artemishospitals.com; वेबसाइट: www.artemishospitals.com

31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के लिए कंसोलिडेटेड वित्तीय परिणामों का सार

(र लाख में)

		समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष		
क्र. सं.	विवरण	31-मार्च-23	31-मार्च-22	31-मार्च-23	31-मार्च-22	
		(अंकेक्षित)				
1	संचालन से कुल आय	19,528.12	14,943.20	73,742.52	55,480.12	
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ (टैक्स से पहले, असाधारण और/ या असामान्य मदों के लिए)	1,403.74	819.44	5,060.60	3,718.48	
3	टैक्स से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ (असाधारण और/या असामान्य मदों के बाद)	1,403.74	819.44	5,060.60	3,718.48	
4	कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ (असाधारण और/ या असामान्य मदों के बाद)	1,070.63	1,320.66	3,801.11	3,140.15	
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [इस अवधि के लिए लाभ (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)]	1,122.41	1,249.05	3,893.21	3,106.68	
6	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रु. १/- प्रत्येक)	1,341.19	1,323.77	1,341.19	1,323.77	
7	रिजर्व (पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर)			32,232.94	27,925.53	
8	प्रति इक्विटी शेयर आय (अंकित मूल्य रु. १/-प्रत्येक)					
	(a) बेसिक	0.79*	1.00*	2.89	2.40	
	(b) डाइलूटड	0.76*	0.95*	2.79	2.29	
	(* वर्षिकृत नहीं)					

नोट्स:

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 5 मई, 2023

www.readwhere.com

कंपनी की प्रमान में रथकोन विनीय जानकारी निम्नानमार है।

		समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष		
क्र. सं.	विवरण	31-मार्च-23	31-मार्च-22	31-मार्च-23	31-मार्च-22	
		(अंकेक्षित)				
1	संचालन से कुल आय	18,702.83	14,619.54	71,433.11	54,478.40	
2	असाधारण मदों के बाद टैक्स से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ	1,357.24	849.85	5,286.30	3,880.89	
3	कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ	1,039.51	1,332.20	3,968.50	3,257.74	

उपरोक्त सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, २०१५ के विनियम ३३ के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्घरण है। वित्तीय परिणामों (कंसोलिडेटेड/स्टैंडअलोन) का पूर्ण प्रारुप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com) और बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट (www.artemishoppitals.com) पर उपलब्ध है।

2. 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए उपरोक्त वित्तीय परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा 05 मई, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में की गई थी और 05 मई, 2023 को आयोजित उनकी बैठक में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया। सांविधिक लेखा परीक्षकों ने उपरोक्त परिणामों पर एक असंशोधित राय व्यक्त की है।

3. उपरोक्त वित्तीय परिणाम कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, २०१५ के अनुसार और कंपनी अधिनियम २०१३ की धारा १३३ के तहत संशोधित (इंड एएस) के अनुसार, और लागू होने वाली अन्य स्वीकृत एकाउंटिंग पद्धति और नीतियों के विस्तार तक के अनुसार तैयार किए गए हैं।

> आरेंमिस मेडिकेयर सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ओंकार कंवर अध्यक्ष

DIN: 00058921

लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर), ईमेल आईडी: support@auctiontiger.net से संपर्क कर सकते हैं।

क्ते हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेट